



## हिन्दी सप्ताह ०५/१०/२०२० --- ९/१०/२०२०

रिज़ वैली विद्यालय में हिंदी विभाग द्वारा अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह को हिंदी सप्ताह के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हिंदी सप्ताह के अंतर्गत अनेक गतिविधियों का आयोजन सफलता पूर्वक किया गया जिसमें छात्रों द्वारा लेखक व कवियों की वेशभूषा में अनेक उत्तम विचारों का प्रस्तुतिकरण एक विडियो के माध्यम से किया। पपेट शो के रूप में हिंदी माध्यम से सुंदर प्रस्तुति छात्रों के द्वारा प्रस्तुत की गई जो कि अति मनोरंजक व प्रेरणाप्रद रही। कविता वाचन व वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन अंतर्सदनीय स्तर पर किया जिसमें छात्रों ने गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता व काका हाथरसी जी की कविताओं का सुंदर भाव से प्रस्तुत किया। जहां छात्रों के लिए अनेक रोमांचक गतिविधियों का आयोजन हुआ वहीं शिक्षकों के लिए भी लघु प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हिंदी जगत से रूबरू करवाया गया। तथा सभी शिक्षकों व प्रधानाचार्या जी ने तल्लीनता से भाग लिया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत नाटक "अंधेर नागरी चौपट राजा" के प्रदर्शन के साथ हिन्दी सप्ताह का समापन किया गया।

### "एकता की जान है, हिन्दी देश की शान है"

उपर्युक्त लिखी पंक्तियों को सही अर्थ दिया, रिज़ वैली के नन्हे मुन्हे बच्चों ने "हिन्दी सप्ताह" का आरंभ कर के। कक्षा नर्सरी और केजी के छात्र छात्राओं ने हिन्दी भाषा को बहुत ही खूबसूरती से अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया।

कहानियाँ और कविताएँ सुनना हम सभी को अच्छा लगता है, नई नई बातें सीखने को मिलती हैं और नए नए पात्रों से भी मिलते हैं। ऐसी ही एक अनोखी कविताओं और कहानियों की दुनिया में ले गए आज हमारे नन्हे बच्चे जब उन्होंने अपनी कठपुतलियों के द्वारा हमें रोचक कहानियाँ और कविताएँ सुनाईं। किसी कहानी में परी थी तो किसी में बेटमैन, हर बच्चे का कहानी सुनाने का अलग ही एक अर्दाज़ था एक दूसरे की कहानी सुनकर नए शब्द सीखे, मज़ा किया और कक्षा के सभी छात्रों का उत्साह बढ़ाया।



100% English & Hindi



